



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 125]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2002/माघ 15, 1923

No. 125]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2002/MAGHA 15, 1923

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

(दूरदर्शन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2002

का.आ. 157(अ).—केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995(1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (i) के साथ पठित उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 29 जनवरी, 2001 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 82(अ) दिनांक 29 जनवरी, 2001 का अधिक्रमण करते हुए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) एतद्द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 13 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं. का.आ. 823(अ) दिनांक 13 सितम्बर, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. दिनांक 13 सितम्बर, 2000 की उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1 के उप पैरा (1) के खंड (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(ग) जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केबल आपरेटर कार्यरत है उसका क्षेत्रीय भाषा चैनल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डी डी भारती चैनल”।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि सं. 22 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :—

“ 23 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	डी डी भारती चैनल
24 बिहार	—	डी डी भारती चैनल
25 छत्तीसगढ़	—	डी डी भारती चैनल
26 दिल्ली	—	डी डी भारती चैनल
27 गोवा	—	डी डी भारती चैनल
28 हरियाणा	—	डी डी भारती चैनल
29 हिमाचल प्रदेश	—	डी डी भारती चैनल

30 झारखंड	—	डी डी भारती चैनल
31 मध्य प्रदेश	—	डी डी भारती चैनल
32 राजस्थान	—	डी डी भारती चैनल
33 सिक्किम	—	डी डी उत्तर-पूर्व चैनल
34 उत्तर प्रदेश	—	डी डी भारती चैनल
35 उत्तरांचल	—	डी डी भारती चैनल

[फा. सं. 16(1) केबल/2000-ई-III]

अनिल बैजल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

(DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2002

S.O. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with sub-section (1) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), and in supersession of Notification No. S.O. 82(E) dated 29th January, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th January, 2001 the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) hereby makes the following amendments in its Notification No. S.O. 823(E) dated 13th September, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 13th September, 2000 :—

1. Clause (c) of sub-para (i) of para 1 of the above said Notification dated 13th September, 2000 shall be substituted by the following, namely :—

“(c) regional language channel of the State/Union Territory in which the cable operator is located or the DD Bharati Channel as specified in the Schedule.”

2. In the Schedule attached to the above said Notification, the following shall be added after entry 22 :—

“23	Andaman & Nicobar Island	—DD Bharati Channel
24	Bihar	—DD Bharati Channel
25	Chhattisgarh	—DD Bharati Channel
26	Delhi	—DD Bharati Channel
27	Goa	—DD Bharati Channel
28	Haryana	—DD Bharati Channel
29	Himachal Pradesh	—DD Bharati Channel
30	Jharkhand	—DD Bharati Channel
31	Madhya Pradesh	—DD Bharati Channel
32	Rajasthan	—DD Bharati Channel
33	Sikkim	—DD North-East Channel
34	Uttar Pradesh	—DD Bharati Channel
35	Uttaranchal	—DD Bharati Channel”

[F. No. 16(1) Cable/2000-E-III]

ANIL BAIJAL, Chief Executive Officer